



Anno dñice Incar millo trecento Quingy octavo Indict Eundem die sabbi Vigotto m<sup>o</sup>  
Juny / Sen vir dñs fons Thomas de fortuna Abbas mon ca petr de pads Cremon / Sen  
a subcolector Remedi pns dn hugolin ep<sup>o</sup> Cremonen<sup>o</sup> colectoris dome treualis dicit  
p cassina i xpo p<sup>o</sup> dñm Imocentiu pp<sup>o</sup> dñi. Anno qnto pontificat eustem i q<sup>o</sup> ente  
dñm sen colector p<sup>o</sup> dñm i amitate adior amonem sp<sup>o</sup> dñm deputatus p<sup>o</sup> dñm A Johanne &  
Verdell not amonem Schiede p<sup>o</sup> medietate dñe reddim a p<sup>o</sup> dñm omni mon ca home  
Cremon ac ecc<sup>o</sup> ca Stephani & mar<sup>o</sup> a ecc<sup>o</sup> ca petr de astruulo dicit p<sup>o</sup> dñm p<sup>o</sup> dñm  
ca mon a dante a munte dicit a noie a d<sup>o</sup> pecunia dñi dñm dñm fr<sup>o</sup> Nicolai Abbis ca  
mon p<sup>o</sup> p<sup>o</sup> dñm i stum Anno festivitatis b<sup>o</sup> Johanne baptiste p<sup>o</sup> dñm Anno dñi t<sup>o</sup> dñm  
Ducatos dnos annu / Sept<sup>o</sup> Ambrosietos grossos a dñm Ambrosium p<sup>o</sup> dñm argenti.




Ego Antoniolus & Restalyo not<sup>o</sup> stas p<sup>o</sup> dñm i<sup>o</sup> p<sup>o</sup> dñm a p<sup>o</sup> dñm ca sc<sup>o</sup> p<sup>o</sup>.  
Morbio 5 (64a)




Anno dñice Incar millo trecento Quingy octavo Indict Eundem die Jomo  
prmo nonob<sup>o</sup> / Sen vir dñs Jacobus de cordis q<sup>o</sup> dñm ecc<sup>o</sup> ca huc dñm dñm  
a subcolector<sup>o</sup> dñi Remedi pns dn hugolin ep<sup>o</sup> dñm a collector p<sup>o</sup> dñm dñm dñm  
huc a recepit a me p<sup>o</sup> dñm a p<sup>o</sup> dñm Antonolo not dante solute a munte dicit  
noie a d<sup>o</sup> pecunia dñi dñm Abbatis p<sup>o</sup> reliqua medietate dñe reddim a p<sup>o</sup> dñm omni dñi  
mon ca home a p<sup>o</sup> dñm p<sup>o</sup> dñm a ecc<sup>o</sup> ca Stephani a ca petr p<sup>o</sup> dñm dñm dñm  
festivitatis omni stas eidem p<sup>o</sup> dñm in dñm dñm. l<sup>o</sup> dñm a sol dñm nove m<sup>o</sup> p<sup>o</sup>.



Ego Antoniolus & Restalyo not<sup>o</sup> stas p<sup>o</sup> dñm i<sup>o</sup> p<sup>o</sup> dñm a p<sup>o</sup> dñm ca sc<sup>o</sup> p<sup>o</sup>.  
Morbio 5 (64 b)



Anno dñice Incar millo trecento quingy nono Indict Eundem die Vig<sup>o</sup> ap<sup>o</sup>lis.  
Sen vir dñs Jacobus de cordis q<sup>o</sup> dñm ecc<sup>o</sup> ca huc dñm dñm  
dome treualis / huc a recepit a dñm p<sup>o</sup> dñm mon ca home dñm dñm  
a munte dicit a noie a d<sup>o</sup> pecunia dñi dñm Abbatis p<sup>o</sup> medietate dñe reddim a p<sup>o</sup> dñm  
omni dñm a p<sup>o</sup> dñm p<sup>o</sup> dñm a ecc<sup>o</sup> ca Stephani p<sup>o</sup> dñm a ca petr p<sup>o</sup> dñm dñm  
Anno festivitatis resurrex<sup>o</sup> dñm dñm in dñm dñm. l<sup>o</sup> dñm a sol dñm nove m<sup>o</sup> p<sup>o</sup>.



Item Anno dñice Incar millo trecento quingy nono Indict Eundem die sabbi Vig<sup>o</sup> ap<sup>o</sup>lis.  
octobr. Sen vir dñs Jacobus dñm a subcolector<sup>o</sup> p<sup>o</sup> dñm dñm dñm  
p<sup>o</sup> dñm a p<sup>o</sup> dñm dñm Abbatis dñm solute a munte p<sup>o</sup> reliqua medietate dñe reddim  
a p<sup>o</sup> dñm omni dñm a dñm p<sup>o</sup> dñm p<sup>o</sup> dñm a ecc<sup>o</sup> ca Stephani p<sup>o</sup> dñm a ca petr p<sup>o</sup> dñm dñm  
omni stas dñm p<sup>o</sup> dñm in dñm dñm. l<sup>o</sup> dñm a sol dñm nove m<sup>o</sup> p<sup>o</sup>.



Ego Antoniolus & restalyo not<sup>o</sup> stas p<sup>o</sup> dñm i<sup>o</sup> p<sup>o</sup> dñm a p<sup>o</sup> dñm ca sc<sup>o</sup> p<sup>o</sup>.



Morbio 5 (64d)  
1358 20  
1358 20  
1358 20

1111

1111

Handwritten text in a cursive script, likely a list or record, written in brown ink on aged paper.



Handwritten text, possibly a title or a specific entry, located below the first main block of text.



Handwritten text, continuing the list or record, located in the middle section of the page.



Handwritten text, possibly a title or a specific entry, located below the fourth block of text.



Handwritten text, possibly a title or a specific entry, located below the sixth block of text.

Handwritten text, continuing the list or record, located in the lower middle section of the page.



Handwritten text, possibly a title or a specific entry, located below the eighth block of text.



Handwritten text, possibly a title or a specific entry, located below the tenth block of text.



Handwritten text, possibly a signature or a date, located at the bottom of the page.





Anno dñice Incar millo trecento quingy octimo Indict Suedna die sabbi Sigotho mñ  
 Junij / Søn vir dñe fent Thomas de fontana / Abbas mon ca perr de pads cremen / Sion  
 a subcolector Benedi pñe dñi hngolm ep̄i cremen / colitore dñe trenalie dicit  
 p̄ sassin r̄ xpo p̄m dñm Imocatu p̄p̄ dñi. Anno dñice pontificat̄ eustem / p̄ eude  
 dñm ep̄m colit̄ p̄fati r̄ civitate adior dñonem sp̄it̄ deputatus p̄m̄p̄ A Johanne &  
 Sordell not dñonem Schete p̄ medietate dñe reddim̄ a p̄m̄m̄ om̄m̄ mon̄ ca t̄ home  
 cremen ac et̄ h̄ ca Stephani & m̄ca / a dñe ca perr de ostro m̄so dicit p̄ dñe p̄m̄m̄m̄  
 dñi mon / a dñe a m̄ante dicit a nore a d̄ p̄m̄m̄ dñi dñi dñi Sio Nicolai Abbe dñi  
 mon / p̄ p̄mo i st̄m̄ dñe festinat̄e bñ Johanne baptiste p̄m̄m̄ dñi dñi dñi  
 Ducatos duos ann̄i Sept̄ Ambrosios grossos a dñm̄ Ambrosium p̄m̄ argen̄.



Ego Antonolus & Festalis not S̄m̄s p̄ dñe Incar a Roge ca S̄p̄si.  
 Morbio 5 (64a)




Anno dñice Incar millo trecento quingy octimo Indict Suedna die Jouis  
 primo novem̄. Søn vir dñe Jacobus de com̄die Ep̄os̄is ac Sionis a subcolector dñi  
 h̄ur a recepit Ame dñe a r̄st̄o Antonolo not dñe Schete a m̄ante dicit a  
 nore a d̄ p̄m̄m̄ dñi dñi Abbatis / p̄ reliqua medietate dñe reddim̄ a p̄m̄m̄ om̄m̄ dñi  
 mon̄ ca thome a p̄m̄m̄m̄ dñe dñi dñi dñi S̄m̄ Stephani a p̄ p̄m̄m̄ dñi dñi dñi  
 festinat̄e om̄m̄ S̄p̄ dñi dñi p̄m̄m̄m̄ dñi dñi dñi. Lib̄ tres a sol̄ dñe nore m̄p̄.



Ego Antonolus & Festalis not S̄m̄s p̄ dñe Incar a Roge ca S̄p̄si.  
 Morbio 5 (64 b)



Anno dñice Incar millo trecento quingy nono Indict Suedna die Sigo m̄p̄o.  
 Søn vir dñe Jacobus de com̄die Ep̄os̄is ac Sionis a subcolector dñi dñi  
 deome trenalie / h̄ur a recepit / a dñe p̄m̄m̄ m̄o dñi mon̄ ca thome dñe Schete  
 a m̄ante dicit a nore a d̄ p̄m̄m̄ dñi dñi Abbatis / p̄ medietate dñe reddim̄ a p̄m̄m̄  
 om̄m̄ dñi mon̄ a p̄m̄m̄m̄ dñi dñi dñi dñi S̄m̄ Stephani a p̄ p̄m̄m̄ dñi dñi dñi  
 festinat̄e resur̄ dñe dñe / S̄m̄ dñi dñi dñi dñi. Lib̄ tres a sol̄ dñe nore m̄p̄.



Item Anno dñice Incar millo trecento quingy nono Indict Suedna die Sabbi Sigo m̄p̄o  
 octob̄. Søn vir dñe Jacobus de com̄die Ep̄os̄is ac Sionis a subcolector dñi dñi  
 Recepit a p̄m̄m̄ dñi Abbate / dñe Schete a m̄ante / p̄ reliqua medietate dñe reddim̄  
 a p̄m̄m̄ om̄m̄ dñi mon̄ a dñe p̄m̄m̄m̄ dñi dñi dñi dñi S̄m̄ Stephani a p̄ p̄m̄m̄ dñi dñi dñi  
 om̄m̄ S̄p̄ dñi dñi p̄m̄m̄m̄ dñi dñi dñi. Lib̄ tres a sol̄ dñe nore m̄p̄.



Ego Antonolus & Festalis not S̄m̄s Roge p̄ dñe S̄p̄si.



Morbio 5 (64d)  
 1358  
 23. Eingetro  
 24. 1358

